Advik Capital Limited

(Formerly known as Advik Industries Limited)
CIN: L65100DL1985PLC022505
Regd. Office: Advik House, Plot No.84. Khasra No. 143/84
Extended Lal Dora 100 Ft. Road, Kanjhawala, New Delhi-110081
E-mail:info@advikgroup.com | Tel: + 91-11-25952595
Fax: +91-11-25952525 | Help Line: +91-9136311500



www.advikgroup.com_____

May 01, 2023

(Scrip Code: 539773)

Listing Compliance Department BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Sub: Newspaper Advertisement of Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2023.

Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2023, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated May 01, 2023 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the Company's website at www.advikgroup.com

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

for Advik Capital Limited

Deepika Mishra
Company Secretary & Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

• AMID SANCTIONS ON MOSCOW

India and Russia in talks to allow use of RuPay, Mir cards

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, April 30

INDIAAND RUSSIA will explore the possibility of accepting RuPay and Mir cards in each other's country for hassle-free payments amid sanctions imposed by the West on Moscow.

In the recent high level Internal Governmental Commission meeting on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation (IRIGC-TEC), it was discussed and agreed to explore the opportunity of allowing acceptance of these cards, sources said.

The mutual acceptance of RuPay(India) and Mircards (Russia) will help Indian and Russian citizens to make hassle-free payments, sources said. The meeting, co-chaired by external affairs minister S Jaishankar and Russia deputy prime minister Denis Manturov, also agreed to explore the possibility of interaction of Unified Payments Interface (UPI) of National Payment Corporation of India and the Faster Payments System (FPS) of the Bank of Russia.

Besides, it was also agreed to look at adopting the Russian financial messaging system, Services Bureau of Financial Messaging System of the Bank of Russia, for cross-border payments. Currently, overseas payments from India and vice versa are through the SWIFT network.

At the given point when sanctions are imposed, sources said, it would not be feasible for India to opt for other than SWIFT network.Recently,Prime Minister Narendra Modi and Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong launched the cross-border connectivity between UPI and PayNow.

Linkage of India's Unified Payments Interface (UPI) and



MAKING PAYMENTS EASIER

■ The mutual acceptance of RuPay (India) and Mir cards (Russia) will help Indian and Russian citizens to make hassle-free payments in Indian rupees and Russian ruble

for Unified Payments Interface of National Payment Corporation of India and the Faster Payments System (FPS) of the Bank of Russia

■ The two nations also

discussed an agreement

Singapore's PayNow now allows people in the two countries to undertake faster and cost-efficient digital transfers. It will also help the Indian diaspora in Singapore, especially migrant workers and students, through instantaneous and low-cost transfer of money from Singapore to India and vice versa. The PayNow-UPI linkage is

the world's first real-time payment systems linkage to use a scalable cloud-based infrastructure that can accommodate future increases in the volume of remittance traffic. To begin with, the SBI, Indian Overseas Bank, Indian Bank and ICICI Bank will facilitate both inward and outward remittances while Axis Bank and DBS India will facilitate inward remittances.

The UPI was launched in 2016, and since then it has emerged as the most popular and preferred payment mode pioneering person-to-person and person-to-merchant transactions, accounting for 75% of the total digital payments. The volume of UPI transactions has increased manifold from 4.5 million in January 2017 to 8.04 billion in January 2023. The value of UPI transactions has increased from just ₹1,700 crore to ₹12.98 trillion during the same period.


National Payments Corporation of India (NPCI) was incorporated in 2008 as an umbrella organisation for operating retail payments and settlement systems in India. It has created a robust payment and settlement infrastructure in the country. It facilitates payments through a bouquet of retail payment products such as RuPay card, Immediate Payment Service (IMPS), UPI, Bharat Interface for Money (BHIM), BHIM Aadhaar, National Electronic Toll Collection (NETC

Fastag) and Bharat BillPay.

EXPLAINER

POLICY BOOST FOR MEDICAL DEVICES

The Union Cabinet recently approved the National Medical Devices Policy, with an aim to accelerate the growth of the segment in the country. The sunrise segment's market size in India is expected to more than quadruple in terms of value in the next five years. **Sarthak Ray** takes a look at the features of the policy



The background

THE MEDICAL devices market in India was estimated to be at around \$11 billion in 2020, and it is projected to reach \$50 billion by 2030. At present, imports constitute up to 80% of the market (as per a 2022 assessment by the US department of trade). The government has been keen on bringing this dependence down, more so with its price regulation policies coming under criticism from international makers.

The pandemic has added to the imperative of domestic production. The Centre also wants to make regulation and incentives more holistic—there are many interventions by government department as well as regulations both at the central and the state levels which need to be brought in sync for "more focused and efficient support."

\$2.74 bn

FOREIGN INVESTMENT IN THE SEGMENT FROM **APR 2000-SEPT 2022**

APPROVED UNDER PLI. WITH ₹1,206 CR **INVESTMENT**

10-12%

SHARE OF GLOBAL MARKET OVER THE NEXT 25 YEARS TARGETED

SHARE OF IMPORTS IN INDIA'S DEVICES MARKET

The policy

THE POLICY focuses on making devices universally accessible and more affordable. At present, per capita spending on medical devices in India is less than a fifteenth of the global average, indicating life-saving devices are not accessed by a large chunk of those who need them. It targets a 10-12% share in the global market over the next 25 years, compared with the 1.5% share at present.

The policy delineates six broad areas of intervention: Regulatory streamlining through single-window clearance; enabling infrastructure, such as large medical devices parks, clusters, and connectivity (all to be pursued together with states and industries); facilitating R&D in conjunction with the National Policy on R&D and Innovation in the pharmamedtech Sector; attracting investment; human resource development; and brand positioning and awareness creation.

interventions

THE FOCUS has been indigenisation, to bring down import

dependence to 30% or

lower. Today, India imports the bulk of its medical devices from China, the US, Germany, Singapore, and the Netherlands, as per an analysis by AiMeD, with imports from China having grown quite fast. To indigenise production, the government came up with a production linked incentive (PLI) scheme for medical devices.

Under the scheme, a

total of 26 projects have been approved so far, with investment of ₹1,206 crore. Of this, 14 projects, producing 37 products, including linear accelerator, MRI scan, MRI coils, highend X-ray tubes, etc. have been commissioned. The remaining 12 will be commissioned soon, says the government. Four medical device parks, in Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, have been set up for the purpose.

Current regulatory landscape

MEDICAL DEVICES are currently regulated under the the Drugs and Cosmetics Act of 1940. A 2020 amendment of the Medical Devices Rules 2017 brought them under the same regulation as drugs under the DCA. For long, there has been a demand for a separate framework for regulation of medical devices, more so since the regulatory

treatment at par with drugs means the government can cap prices as per its own logic. Additionally, the Niti Aayog had noted that the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) lacks the expertise to "check the safety and efficacy of medical devices."

The government unveiled a draft legislation last year, titled the

Drugs, Medical Devices, and Cosmetics Bill 2022 to offer a comprehensive regulatory framework for medical devices that would uphold both consumer and industry interests. However, the creation of the Medical Devices Technical Advisory Board to assist the regulator, some experts argue, is not enough to serve the dynamic

needs of regulating medical devices in the country. They have called for a separate regulator altogether. Experts say the medical devices policy should shed light on how the regulation of the space is to be dealt with in a more effective manner than the current regime and that proposed by the new Bill.

JioCinema in fast-forward mode

CHRISTINA MONIZ Mumbai, April 30

REPLICATING ITS MOVE in telecom from a few years ago, Jio is now aiming to disrupt the OTT (over-the-top) market. After bagging the digital streaming rights for IPL (Indian Premier League), JioCinema, the video streaming platform of Viacom 18, entered into an exclusive deal with Warner Bros Discovery, allowing it to stream all HBO, Max Original and Warner Bros content. With this move, the relatively newer OTT platform that was launched in 2016, is expected to shake up the streaming industry.

Karan Taurani, senior vicepresident at Elara Capital, says JioCinema is aiming to be the market leader in the space with the kind of disruptive moves it is

"It all started with Jio purchasing the digital rights for IPL streaming at a hefty premium. The digital rights were acquired at a cost over six times higher than the previous cycle. Their next disruptive move was to offer IPL free of cost. Then they announced Jio Studios, with a and even films on OTT, indicat-

\$2 billion market ■ YouTube's share is worth \$800 million

A \$2 BN BET

OTT in India is a

■ With the Disney deal JioCinema is expected to shake up the industry

ing that JioCinema would offer

■ JioCinema will have to iron out the glitches on its app, say experts

more than just IPL. With each move, it is clear that the platform is aiming to become the market leader in the OTT space," Taurani said. As per Elara Capital's estimates, the OTT segment is a \$2 billion dollar market, of which about \$800 million is YouTube's share. The rest of the

market share is taken up by over 40 players, with Disney+ Hotstar commanding an estimated 20%, followed by Netflix with a 15% share. Taurani observes it takes

some time for existing platforms to get consumers to pay slate of 100 originals, web series for OTT content and a free content proposition (like IPL this

year) may not necessarily bode well for this category. While Netflix leads the SVOD (subscriber video on demand) market, Hotstar was at top in AVOD (advertiser video on demand) market till IPL moved address. Taurani expects JioCinema to take the lead in the SVOD market in a year or so, on the back of its content plans and the kind of AVOD revenue it can generate.

Noting that it may take a few years before Jio Cinema can build a compelling content library at par with the other players, Santosh N, managing partner, D&P Advisory says, "With a strong content library, and the fact that largest movie production rights back in 2017.

houses, Disney+ Hotstar will continue to remain a strong OTT player, despite losing IPL and Warner Bros Discovery content. In contrast, Jio is still relatively newand its content offerings are nowhere near what Hotstar, Netflix, Prime Video or even Zee 5 can offer. It remains to be seen if they sign more content partnerships that help them build their content proposition." Further, user experience is

also critical in driving up subscriptions beyond content in this market, say experts.

"The app is still a long way off from matching the seamless user experience that other platforms offer. At the end of the day, no amount of content can help you if you cannot get the backend tech right and deliver a good user experience," says Santosh.

JioCinema will have to iron out the glitches on its app and invest in retaining more users the way the other platforms do, especially the likes of Netflix and Prime Video, with presence in multiple countries. It may be recalled that Hotstar, too, spent a good couple of years testing and perfecting its tech backend after Disney is one of the world's Star India won the IPL media

MANUEL BAIGORRI & AARON KIRCHFELD April 30

MIDEA GROUP IS exploring a potential acquisition of Electrolux, according to people familiar with the matter, a bold move by the Chinese home appliance giant to add the higher-end luxury Swedish brand despite potential political opposition.

Midea made a preliminary approach in recent weeks to the white-goods manufacturer about a possible transaction, said the people, who asked not to be identified because discussions are private. Electrolux has so far not been receptive to the proposal, some of the people said.

Midea has been interested in Electrolux for some time and would only want a friendly deal, the people said. Other Asian appliance makers including Samsung Electronics Co. have also looked at the Swedish business, the people added.

Stockholm-based Electrolux's B shares jumped almost 16% Friday on betterthan-expected earnings, giving it a market capitalisation of

\$4.3 billion. Midea shares are up about 10% this year, valuing it around \$58 billion.

The deal would test the Chinese company's ability to make foreign acquisitions amid growing protectionist measures in Europe and the US, even $if dish was hers \, and \, refriger ators \,$ wouldn't necessarily be deemed a national security risk.

in 2016. It acquired German



■ The decision has been deemed as a bold move by the Chinese home appliance giant to add the higher-end despite opposition

robot maker Kuka a year later, which triggered concerns in the German government.

in America and Europe in 2017 after the firm participated in the bidding for General Electric's white goods unit, which was sold to Chinese competitor Haier Group. Turkey's Arçelik, which did a European deal with Whirlpool this year, is also a competitor. Midea and Electrolux already have some partnerships, and in 2018 they launched the high-end AEG

(Rs. In Lakhs)

11 die after inhaling toxic gas in Ludhiana

DIVYA GOYAL GOPAL Ludhiana, April 30

ATLEAST 11 people, including a family of five, died and four were hospitalised in a critical condition Sunday morning after inhaling poisonous gas at Ludhiana's Giaspura, a thickly populated area with heavy presence of migrants.

The source of the toxic gas was being ascertained, the district administration said. It is suspected that it may have emanated from a partially open manhole in the locality and spread to nearby shops and houses.

Soon after the incident was reported, authorities evacuated people from the area and a team from the National Disaster Response Force (NDRF) was pressed into service. "In the air quality sensors

financialexp.epap.in



at the site of the gas leak in Ludhiana on Sunday

used by the NDRF team, high level of hydrogen sulphide gas has been detected and it is ascertained that this gas might have led to the tragic incident," said a statement from the Ludhiana district administration later in the day. It said a magisterial inquiry has been ordered.



BRANCH: Clock Tower Ludhiana-141008 Email:- ludhia@bankofbaroda.com

Rule-8 (1) POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the BANK OF BARODA, Clock Tower, Ludhiana under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices dated mentioned as below calling upon the borrower(s)/Gurantor(s) to repay the amount mentioned in the Notice(s) being as Below within 60 days from the date of receipt of the said Notices.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) in particular and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub Section (4) of Section (13) of Act read with rule 8 of the Security Interest(Enforcement) Rules, 2002, on these dates as mentioned against below account. The borrower(s)/ Guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property (ies) will be subject to the charge of the BANK OF BARODA, Clock Tower, Ludhiana for an aggregate amount of as mentioned below + future interest

thereon and costs, etc. The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Description of Date of Date of Borrower/Guarantor the Mortgage **Demand Possession** /Owner of Property | Property/ies Notice Borrower/s:- M/s. DS All that part and 31.07.2021 25.04.2023 Fabricator through its parcel of the property consisting of Equitable Proprietor Sh. Nishant | Mortgage of residential House no. 13231, St no. 2, Sharma, Street No.5, Near MD School, Gopal Nagar, Tibba Road,

Twenty Nine Lacs Four Thousand Six Hundred Alamgir Road, Shaheed Ludhiana measuring 105.50 sq.yards in the Ninty And Paise Ninty Jasdev Singh Nagar, name of Mrs. Vidya Rani w/o Mr. Ramesh Four Only as on Opposite GNE College, Kumar Sharma as per wasika no 18598dt 15.06.2021 and interest Ludhiana. Guarantor/s:- 1. 06.02.2007.

Smt. Vijay Rani W/o Mr. Ramesh Kumar, House no 13231 Street no 2 Gopal NagarTibba Road Near MD School, Shankar building store wali gali, Ludhiana. 2. Smt. Sheetal Sharma w/o Mr. Nishant Sharma, House no 13231 Street no. 2 Gopal Nagar, Tibba Road, Near MD School, Shankar building store wali gali, Ludhiana. 3. Sh. Gagandeep Singh s/o Mr. Amardeep Singh, House no. 3270, Gill Road, New Janta Nagar, Ludhiana.

DATE: 30.04.2023 PLACE LUDHIANA

AUTHORISED OFFICER

Place: New Delhi

Nature of Possession

Amount Outstanding

Physical Possession

Rs.29,04,690.94/- (Rs.

Particulars

China's Midea Group in talks to acquire Electrolux

Buying Electrolux would add to previous overseas acquisitions by Midea. The Chinese company, which is based in Foshan in Guangdong province, bought a controlling stake in Toshiba's home appliance unit



luxury Swedish brand

Midea chairman Paul Fang

hinted at interest in acquisitions brand in China together. - BLOOMBERG

Advik Capital Limited ADVIK CAPITAL LIMITED Registered office: Plot No. 84, Khasra No, 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi-110081, Ph No: 011-25952595 Website: www.advikgroup.com/ail Email: advikcapital@gmail.com, STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR

Three Months Ended 31/Mar/23 | 31/Mar/22 | 31/Dec/22 | 31/Mar/23 | 31/Mar/22 Audited Audited Total Income 214.82 3,309.42 1,082.06 34,934.26 3,949.52 1,308.99 Net Profit/ (Loss) Before Tax -160.7022.64 502.30 53.98 Net Profit/ (Loss) After Tax -132.9418.49 364.41 954.61 41.13 Total comprehensive income for the -1,029.76 18.49 364.41 57.79 41.13

period						
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	2,125.52	458.74	2,201.93	2,125.52	458.74	
Earning per Equity Share of Re 1/- each		1				
Basic	0.48	0.04	0.17	0.03	0.09	
Diluted	0.48	0.04	0.17	0.03	0.09	
		8		(Rs	. In Lakhs)	
Particulars	Consolidated					
	Three Months Ended			Year Ended		
	31/Mar/23	31/Mar/22	31/Dec/22	31/Mar/23	31/Mar/22	
100 C 100	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	
Total Income	22,889.47	3,412.96	3,780.20	60,436.89	4,657.72	
Net Profit/ (Loss) Before Tax	-163.62	23.96	502.70	1,282.64	63.29	
Net Profit/ (Loss) After Tax	-135.35	18.97	371.08	934.89	47.38	
Total comprehensive income for the period	-1,032.17	18.97	371.08	38.07	47.38	
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	2,125.52	458.74	2,201.93	2,125.52	458.74	
Earning per Equity Share of Re 1/- each		8		2		
Basic	0.49	0.04	0.17	16.80	0.10	
Diluted	0.49	0.04	0.17	16.80	0.10	
	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each) Earning per Equity Share of Re 1/- each Basic Diluted Particulars Total Income Net Profit/ (Loss) Before Tax Net Profit/ (Loss) After Tax Total comprehensive income for the period Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each) Earning per Equity Share of Re 1/- each Basic	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each) Earning per Equity Share of Re 1/- each	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	

Notes to Audited Standalone and Consolidated IND AS Financial Results:

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Full format of the financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's
- website (www.advikgroup.com). The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held in April 29, 2023. The Statutory auditors have carried out audit of the results for the quarter and financial year ended March 31, 2023.

for Advik Capital Limited Ashwini Kumar Whole Time Director and CFO DIN:09651038

Date: 30/04/2023 New Delhi सूरत हवाई अड्डे के पास 4.3 करोड़ का सोना जब्त, चार गिरफ्तार

कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम

कॉम्पॉरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि

प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट

व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है

पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या

कॉर्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत

कार्यालय और प्रधान कार्यालय

कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ

परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता,

दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या

दावे जमा करने की अन्तिम तिथि

परिसमापन आरम्भ किया है।

तिथि: 01 मई 2023

स्थान : नई दिल्ली

अनुसूची देखें:

ज्ञात अधिभार (यदि कोई हो)

धरोहर राशि भुगतान (रु. में)

र्डएमडी सहित बोली निविदा जमा करने

सार्वजनिक नीलामी की तिथि, समय

tion.com द्वारा ऑनलाईन आयोजित की जायेगी।

की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान

आरक्षित मल्य (रू. में)

बोली वृद्धि राशि

एवं स्थान

तिथि: 01.05.2023

स्थानः नोएडा

(यदि कोई हो तो) का पता

होने की तिथि

नोमेंटिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वर्क यार्ड को—वर्किंग, प्लॉट नंबर 337, इंडस्ट्रियल एरिया,

सी / ओ एवीएम रेजोल्युशन प्रोफेशनल्स एलएलपी

पताः 8 / 28. (तीसरी मंजिल), डब्ल्यू,ई.ए., अब्दुल अजीज

फोन: 01141486026/27। मोबईल: 9873088243

पंजी: सं: IBBI/IPA-003/IP-N00187/2018-2019/12415

जगदीश सिंह नैन

परिसमापक, नोमेंटिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-003/IP-N00187/2018-2019/12415

भगतान ''एक्सिस बैंक लि.'' के पक्ष में देय दिल्ली में भगतान योग्य

16 मई, 2023 के अधिकतम 5.00 बजे अप. तक श्री अनुज गुप्ता व

संबोधित एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128

नोएडा. एक्स्प्रैस वे. जयपी ग्रीन्स, विशटाउन, नोएडा-201301, उ.प. में

ा७ मई, २०२३, ११.०० बजे पूर्वा से १२.०० बजे दोपहर तक

पति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ वेब पोर्टल

https://www.bankeauction.com पर ई-नीलामी बोली

प्रपत्र, उदघोषणा आदि से संबंधित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज

आपका विश्वासभाजन

एक्सिस बैंक लि.

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

ऊपर वर्णित सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

रिटेल लेण्डिंग एवं पेमेन्ट ग्रुप (स्थानीय कार्यालय/शाखा): एक्सिस हाउस,

रजिस्ट्रारऑफ कम्पनीज--चंडीगढ

फेस — 2, चंडीगढ़ — 160002, भारत

रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005

ईमेल : vlp.nomentia@gmail.com

प्रारूप ए

सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

नोमेंटिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

28 मार्च, 2018

28 अप्रै ल 2023

28 मई 2023

तद्वारा सूचना दी जाती है कि नोमेंटिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 28 अप्रैल 2023 को स्वैच्छिक

नोमें टिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे । अन्य सभी पक्षकार अपने दावों

AXIS BANK टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रैसवे, जयपी ग्रीन्स

विशटाउन, नोएडा-201301, उ.प्र. एक्सिस बैंक लि., 3रा तल, गीगा प्लेक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल

एरिया, मुगालसन रोड, ऐरोली, नवी मुम्बई-400708, पंजीकृत कार्यालय: ''त्रिशूल'', उरा तल, समर्वेश्वर

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सुचना

्रप्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों

के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसपितयों

एतद्द्वारा सर्व-साधारण तथा विशेष रुप से ऋणधारक(कों) तथा गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत

क्रेडीटर के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभृत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

भौतिक कब्जा किया गया है की 1. मै. लक्ष्मी चंद ओम प्रकाश, 2. श्री आशीष गुप्ता, 3. श्रीमती शशि गुप्ता एवं श्री

ओम प्रकाश गुप्ता से ऋण सं. 920080034413165, 920080034413987, 917030051878458 में

प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ 31.10.2020 को रु. 3,16,99,855/- (रु. तीन

करोड सोलह लाख निन्यानवे हजार आठ सौ पचपन मात्र) की वसूली के लिये 22.12.2022 को ''जैसा है जहाँ

है'', ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आवश्यक विवरणों के लिये कृपया संलग्न नीलामी

डीडी/पीओ द्वारा किया जायेगा।

अनुसूची-सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती शशि गुप्ता, पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता के नाम में ग्राम भरोला, आदर्श नगर के नाम से विदित कॉलोनी में कॉटेज

रोड, दिल्ली-110033 में स्थित ब्लॉक सी-5, खसरा न. 262/258/217/4/3 में सम्पत्ति सं.-5, छत/टैरेस के अधिकार

के साथ, भिम एरिया माप 105.5 वर्ग यार्डस की सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज। सम्पति की चौहद्दीः पर्वः बिक्री प्रलेख

बिकी के विस्तत नियमों एवं शतों के लिये कपया प्रतिभत केडीटर की वेबसाईट अर्थात

https://www.axisbank.com/auction-retail में दी गई लिंक तथा बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. सी1

यह नीलामी बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. सी1 इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का वेब पोर्टल https://www.bankeauc-

अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिये इच्छुक बोलीदाता श्री अनुज गुप्ता, मोबाईल नं.

+91-9911882040, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से बैंक कार्यालय अविध 9.30 बजे पूर्वा से 4.00 बजे अप. तक सम्पर्क करें।

के अनुसार, पश्चिमः बिक्री प्रलेख के अनुसार, उत्तरः दक्षिणः बिक्री प्रलेख के अनुसार, बिक्री प्रलेख के अनुसार,

इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का वेब पोर्टल https://www.bankeauction.com देखें।

रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)

h पास **28 मई 2023** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं ।

दावे के फर्जी अथवा भामक प्रमाण की प्रस्तृति दंडनीय होगी।

टेम्पल के सामने, लॉ गार्डन, एलिस ब्रिज, अहमदामाद-380006

के बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

जगदीश सिंह नैन

कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता U72900CH2018FTC041932

Maharashtra

Baban Vishnu Shelar

R/o Ap Kuskarwadi Korti Tal

Whereas it has been proved to the

satisfaction of the court that you, the

the ordinary way of service. Hence this

proclamation under section 82 CRPC is

of this proclamation take notice that, in

and determined as per law, in your

absence, for details logon to:

Karmala Distt Solapur- 413203

COMA/374/2020 Peshi: 31-05-2023 publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec138 of N.I ACT Kotak Mahindra Bank Kotak Mahindra Bank

JMIC Ludhiana

Ramnayan Jagram Yadav @ Ramnayan Yadav Notice To: Baban Vishnu Shelar Notice To: Ramnayan Jagram Yadav @ Ramnayan Yadav R/o Hno 854, 550, Diva Naka, Ambedkar Nagar, Rabada, Navi Mumbai Maharashtra Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served i accused above named cannot be served i the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is nereby issued against you with a direction hereby issued against you with a direction that you should appear personally before that you should appear personally before this court on 31-05-2023 at 10:00 a.m. or this court on 31-06-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed default of your part to appear as directed above the above said case will be heard above the above said case will be heard and determined as per law, in your

absence, for details logon to:

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में}

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से

दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र

में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

टैलीमैट मैटीरियल्स एण्ड टॅकनोलॉजीस

(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U51909DL1999PTC098288)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 2952-53 / 2, दूसरी

मंजिल, संगतराशन पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055

इंगेल: ashutosh.thakur@neoperl.com

में हैं, के मामले में

तदहारा सार्वजनिक सचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है,

जेसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय**

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" मे

2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक

पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम

ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

। यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है र

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल

कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में

शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ प

जेसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध व

कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय

निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख

चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा

तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ

कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत

डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदव

कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

टैलीमैट मैटीरियल्स एण्ड टैकनोलॉजीस

(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

2952-53 / 2, दूसरी मंजिल, संगतराशन

पहाडगंज, नई दिल्ली-110055

स्थानांतरित करने के लिए **बृहस्पतिवार, 27 अप्रैल**

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

JMIC Ludhiana

CNR NO: PBLD03-000585-2020

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_no https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_not ice&district=ludhiana ice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में }

कंपनी के पंजीकत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

निओपर्ल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74140DL2011FTC227863) जिसका पंजीकृत कार्यालय: 2952-53 / 2, दूसरी मंजिल, संगतराशन पहाडगंज, नई दिल्ली—110055 ईमेल: ashutosh.thakur@neoperl.com में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकत्त तदद्वारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "इरियाणा राज्य" मे स्थानांतरित करने के लिए बृहस्पतिवार, 27 अप्रैल 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाय की पुष्टि करने की मांग की

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण सं यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध क कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख र चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा ल, पांडेत दीनदयाल अत्यादय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते परभी भेजें।

2952–53 / 2, दूसरी मंजिल, संगतराशन पहाडगंज, नई दिल्ली—110055

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर र निओपर्ल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हस्ता / दिनांक: 01.05.2023 नवीन कमार बत्स (निदेशक)

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 01.05.2023 नवीन कमार बत्स (निदेशक ढीआईएन: 01905193 स्थानः दिल्ली ढीआईएन: 01905193

परभी भेजें।

FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorized to Register) Rules, 2014]

 Notice is hereby given that in pursuance of sub-section(2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5 IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 that Bhatia Electronics a partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.

The Principal objects of the company are as follows:-

 To carry on the Business of the manufacturing, marketing, trading, purchasers, sellers, importers, exporters, and/or otherwise deal in all types/kinds of batteries, (AC/DC) inverters, U.P.S (online/offline), Battery Changer (SMPS), Servo transformers/ stabilizer and all power solutions, all electrical, domestic and industrial appliances, AMC/repairing of all electronic goods and any other objective ancillary to the main objects, storage batteries, dry batteries, cells. To carry on the Business of the manufactures, purchasers, sellers, importers, exporters, and/or otherwise deal in all

type /kinds of electrical components, parts and accessories. To act as agents, stockiest, dealers or distributors for other manufacturers dealing in any type kinds of electrical components, part and accessories including battery, battery water, battery separators, battery containers, cells.

A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at E-2/1, DDAMarket, Sultanpuri 110086-Delhi.

 Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objections in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon-122050, Haryana, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the proposed Company at its registered address as mentioned in

Dated this 1" day of May, 2023

Name of Applicants Mr. Rishabh Bhatia

Mr. Raman Bhatia (Partner) (Partner)

निर्माण/विकास आवासीय/वाणिज्यिक स्थान में परिचालन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण कॉर्पोरेट देनदार का नाम किलरसिटी होम्स प्राइवेट लिमिटेड साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. सीआईएनः U70100UP2013PTC061038 3 / 4 पार्क टाउन आदित्य वर्ल्ड सिटी एनएच-24 वेव के पास पंजीकृत कार्यालय का पता

मुख्य उत्पादों की मात्रा और मुल्य /

पर्व प्रबंधन ने पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 31.03.2022 को समाप्त होने वाले मुख्य उत्पादों / सेवाओं की मात्रा और मृल्य का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। पूर्व प्रबंधन ने कर्मचारियों / कर्मकारों का विवरण रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया है। पी एंड एल वक्तव्य के रूप में 31.03.2019

hemigupta@rediffmail.com पर लिखकर प्राप्त

विषय: लायडॉल पर्फोमैन्स मैटेरियल्स इंडिया एलएलपी के पंजीकत कार्यालय का स्थानांतरण जिसका गुड़गाँव- 122015 में है।

पंजीकत कार्यालय: 335. उद्योग विहार. फेज IV. एतदद्वारा सर्व-साधारण को सचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य से महाराष्ट्र राज्य में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए एलएलपी अधिनियम, | 2008 की धारा 13(3)तथा एलएलपी नियमावली, 2009

के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी भी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों को उल्लेख करते हुए एक

कृतो एवं के लिये लायडॉल पर्फोमैन्स मैटेरियल्स इंडिया एलएलपी रणजीत मल्ली नाटानमई

तिथि: 01.05.2023

(DIN: 09342166)

पद्नामित पार्टनर

Place: New Delhi

Date: 30/04/2023

पुलिस ने एक खुफिया सूचना के

अधिकारी ने कहा कि चारों की पहचान फेनिल मवानी (27), नीरव डाबरिया (27), उमेश लाखो (34) और सावन

(30) के रूप में हुई है। उन्होंने सोने के पेस्ट को

रसायन की एक परत के साथ मिलाया, जिसे चिपकने वाली टेप का उपयोग करके दो आरोपियों के अंतर्वस्त्र में छिपा दिया गया था।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोने को छिपाने के इस तरीके का इस्तेमाल करके दोनों वाहक आव्रजन सुरक्षा जांच से बचने में कामयाब रहे। यह सोना वे कार में सवार दो अन्य लोगों के कहने पर लेकर गए थे। इस मामले में दुबई का एक व्यक्ति वांछित है।

'ड्राइविंग लाइसेंस' के लिए वैध प्रमाणपत्रों की संख्या बढ़ेगी

पकज रोहिला नई दिल्ली, 30 अप्रैल।

छतरपुर, ३० अप्रैल (भाषा)।

देश में डाइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रयोग होने वाले वैध प्रमाणपत्रों की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने आम जनता की राय शुमारी शुरू कर दी है। इस व्यवस्था से देश भर में एक जैसी प्रक्रिया को भी लागू किया जा सकेगा। नए प्रमाणपत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई भी नागरिक आगामी 10 मई तक अपने सुझाव परिवहन मंत्रालय को भेज सकता है। आम जनता के सुझावों के बाद इन दस्तावेजों से संबंधित प्रमाणों की अधिसूचना को जारी किया जाएगा। किसी भी राज्य में वाहन चलाने का लाइसेंस बनवाने के लिए व्यक्ति की पहचान, आयु और आवास की प्रमाणिकता के लिए इन प्रमाणपत्रों का प्रयोग किया जाता है।

मप्र : कैदी ने फांसी लगाकर की

आत्महत्या, जांच बैठी

जिले की एक उपजेल में हत्या के मामले में बंद एक कैदी ने रविवार

को कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की

न्यायिक जांच के आदेश दिए गये हैं। यह जानकारी एक अधिकारी ने

दी। उन्होंने कहा कि यह घटना छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 37

बिजावर के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) राकेश शुक्ला ने

बताया कि किशनगढ़ थाना क्षेत्र के बांकी गरौली निवासी नौने लाल राय

(55) ने आज सुबह लगभग चार बजे बिजावर उप जेल की अपनी

कोठरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि वह

अपने पुत्र की हत्या के मामले में जेल में बंद था। जेलर से मामले की

जानकारी पाकर तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को नीचे

उतरवाकर जांच की गई। मृतक के परिजनों को सूचित करने के बाद

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुक्ला ने बताया कि जिला

COURT NOTICE COURT NOTICE

न्यायाधीश ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए।

In The Court Of Ms. Shweta Dass

publication notice for proclamation under section

Notice To: 1. Parveen Sood Partner Of

Sood R/o H-39, 2nd Floor, Kirti Nagar,

82 CR.PC Complaint R/w sec138 of N.I ACT

M/s Flora Export S/o Chaman Lal

New Delhi 110015 2. Nishi Sood

Partner Of M/s Flora Exports W/o

Kirti Nagar, New Dehli 110015

Whereas it has been proved to the

satisfaction of the court that you, the

accused above named cannot be served in

the ordinary way of service. Hence this

proclamation under section 82 CRPC is

that you should appear personally before

this court on 30-05-2023 at 10:00 a.m. or

within 30 days from the date of publication

of this proclamation take notice that, in

default of your part to appear as directed

above the above said case will be heard

and determined as per law, in your

absence. for details logon to:

ice&district=ludhiana

hereby issued against you with a direction

Parveen Sood R/o H-39, 2nd Floor

CNR NO: PBLD03-022616-2021

Peshi: 30-05-2023

JMIC Ludhiana

Vinod Kumar

M/s Flora Exports

किलोमीटर दर बिजावर उप जेल में सबह लगभग चार बजे की है।

अब केंद्र सरकार वर्तमान प्रावधानों में संशोधन कर देशभर में प्रमाण की एक ही व्यवस्था को लागु करना चाहती है, इसके लिए सरकारी दस्तावेजों को तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। लाइसेंस जारी करने के लिए वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम में इसके लिए प्रावधान हैं। इसकी के तहत आवेदनकर्ता को ये जानकारियां राज्य स्तर पर परिवहन विभाग को देनी होती है।

मंत्रालय ने आधार कार्ड बनाने वाली एजंसी से भी उन दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। संभावना जताई जा रही है कि इस प्रक्रिया से भविष्य में लाइसेंस के लिए आधार कार्ड के प्रयोग का भी रास्ता खुल सकता है। इसके लिए पहली 18 श्रेणी के कुछ प्रमाणों को रखा गया है। इनमें आधारपत्र, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, केंद्र या राज्य सरकार का पहचान पत्र, किन्नर प्रमाण पत्र आदि ऐसी पहचान हैं, जो नई श्रेणी में शामिल होंगे।

In The Court Of Sh. Reetbrinder Singh Dhaliwal JMIC, bathinda M/s Unique Farm Aid Pvt. Ltd Its branch office at Eagle Complex, Godown No 8

1. M/s Mahalaxmi Beei Bhandar Village Kichhana Main Road, Tehsil Rajaund Distt Kaithal 136027 Haryana Through Its Prop Sh Sanjay Kumar S/o Ram Sarup . Sanjay Kumar S/o Ram Saroop Prop. Of M/s Mahalaxmi Beej Bhandar, R/o Village Kichhana, Main Road Tehsil Raiaund, Distl Kaithal, Harvana 90508-67000 COMA/633/2021

Publication Issued To: 1. M/s Mahalaxmi Beei Bhandar Village Kichhana Main Road, Tehsil Rajaund Distt Kaithal 136027 Haryana Through Its Prop Sh Sanjay Kumar S/o Ram Sarup 2. Sanjay Kumar S/o Ram Saroop Prop. Of M/s Mahalaxmi Beei Bhandar, R/o Village Kichhana, Main Road Tehsil Rajaund, Distt Kaithal, Haryana 90508-

s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 08-06-2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd,gov, in/?trs=district notice&district=Bathinda

CNR NO: PBLD03-000453-2020 COMA/236/2020 Peshi: 02-06-2023 publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec138 of N.I ACT Kotak Mahindra Bank Vs.

Notice To: Kishor Nahak R/o Bhalukuma Bada, Ektali Keonjhar Keonjhar -758015 (Orissa) Whereas it has been proved to the

satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served ir the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 02-06-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_not

ice&district=ludhiana JMIC Ludhiana संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

रामगढ़, जहांगीरपुरी, दिल्ली-110033, jahangirpuri@indianbank.co.in परिशिष्ट-IV { नियम-8(1)} कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 17.02.2023 जारी कर ऋणधारक मै. शिव ट्रेडिंग (प्रॉप. सुश्री निधि गुप्ता) जिनका जहाँगीरपुरी शाखा में खाता है, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,78,93,330/-(रु. एक करोड अठहत्तर लाख तिडानवे हजार तीन सौ तीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज, 29 अप्रैल, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित

अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति

का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,82,11,174/- (रु. एक करोड बयासी लाख ग्यारह हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ''हम आपका ध्यान प्रतिभृतियों को विमोचित करने के लिये सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रति आकष्ट करते हैं जिसमें आपके अधिकारों का उल्लेख है।

अचल सम्पत्ति का विवरण आवासीय भवन सं.-17, खसरा नं. 13/3 में जो गली नं. 14, रेलवे रोड, समयपुर, दिल्ली-110042 में स्थित है, एरिया-

175 वर्ग यार्ड्स (146.31 वर्ग मी.), चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रोड तिथि: 29.04.2023, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन बैंक

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_not notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Advik Capital Limited

ADVIK CAPITAL LIMITED CIN: L65100DL1985PLC022505 Registered office: Plot No. 84, Khasra No, 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla,

Delhi-110081, Ph No: 011-25952595 Website: www.advikgroup.com/ail Email: advikcapital@gmail.com, STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR

ENDED MARCH 31, 2023

(Rs. In Lakhs) S. Standalone **Particulars** No. Three Months Ended Year Ended 31/Mar/23 31/Mar/22 31/Dec/22 31/Mar/23 31/Mar/22

		31/Mar/23	31/Mar/22	31/Dec/22	31/Mar/23	31/Mar/22
		Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income	214.82	3,309.42	1,082.06	34,934.26	3,949.52
2	Net Profit/ (Loss) Before Tax	-160.70	22.64	502.30	1,308.99	53.98
3	Net Profit/ (Loss) After Tax	-132.94	18.49	364.41	954.61	41.13
4	Total comprehensive income for the period	-1,029.76	18.49	364.41	57.79	41.13
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	2,125.52	458.74	2,201.93	2,125.52	458.74
6	Earning per Equity Share of Re 1/- each			6		
	Basic	0.48	0.04	0.17	0.03	0.09
	Diluted	0.48	0.04	0.17	0.03	0.09
			0.300010		(Rs	. In Lakhs
S.	Particulars	Consolidated				
No.		Three Months Ended			Year Ended	
		31/Mar/23	31/Mar/22	31/Dec/22	31/Mar/23	31/Mar/22
		Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income	22,889.47	3,412.96	3,780.20	60,436.89	4,657.72
2	Net Profit/ (Loss) Before Tax	-163.62	23.96	502.70	1,282.64	63.29
3	Net Profit/ (Loss) After Tax	-135.35	18.97	371.08	934.89	47.38
4	Total comprehensive income for the period	-1,032.17	18.97	371.08	38.07	47.38
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	2,125.52	458.74	2,201.93	2,125.52	458.74
6	Earning per Equity Share of Re 1/- each				20.000	-,,,
	Basic	0.49	0.04	0.17	16.80	0.10
	Diluted	0.49	0.04	0.17	16.80	0.10

Notes to Audited Standalone and Consolidated IND AS Financial Results:

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Full format of the financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's website (www.advikgroup.com).

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held in April 29, 2023. The Statutory auditors have carried out audit of the results for the quarter and financial year ended March 31, 2023. for Advik Capital Limited

Ashwini Kumar Whole Time Director and CFO DIN:09651038

के एम कॉपर प्राइवेट लिमिटेड परिसमापनाधी सीआईएन : U27101DL2011PTC226819 परिसमापक : श्री हरविन्दर सिंह

दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत बिक्री सूचना

पता : 11. सीएससी डीडीए मार्केट, ए ब्लॉक, सरस्वती विहार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110034

ई-मेल : harvinder@akgandassociates.com तथा kayem.liquidation@gmail.com मोबाइल : +91-9810046631 र्ड-नीलामी दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 31.05.2023 को 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित) निरीक्षण की अन्तिम तिथि : 22.05.2023

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, दिल्ली द्वारा अपने आदेश दिनांक 09 मार्च 2023 के माध्यम से नियक्त परिसमापक द्वारा निर्मित परिसमापन सम्पदा का हिस्सा निर्मित करने वाली परिसमापनाधीन के एम कॉपर प्राइवेट लिमिटेड

के स्वामित्व वाली आस्तियों और संपत्तियों की बिक्री जिसमें परिसमापक को आदेश 11.03.2023 को सर्व किया गय था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की पूरी कंपनी (जारी कंसर्न के रूप में) नीचे उल्लिखित आरक्षित मूल्य पर नीलाम की जाएगी

(राशि रु. में)

-	ાવવરળ	ब्लाक	आराक्षत मूल्य	इएमडा साई	
	कम्पनी (जारी कंसर्न के रूप में)	A	10,00,000/-	1,00,000/	
1	नोट 1. ऊपर उल्लिखित आस्तियों की बिक्री,	बिक्री मूल्य के	अतिरिक्त खरीदार द्वारा	वहन किए जाने	
1	जीएसटी और अन्य करों के अधीन होगी।				
1	2. देनदारों की वसूली के लिए राशि (आईर्ब	ोसी कोड, 2010	6 की धारा 66 और	67 के परिहार व	
			2		

आवेदन को छोड़कर, जो परिसमापक द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (नई दिल्ली पीठ) के समक्ष दायर की गई है और अनएब्जॉब्र्ड क्षति भी गोइंग कंसर्न के रूप में कंपनी की बिक्री में शामिल बिक्री का तरीकाः

कंपनी को बेचा जाना आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32ए अर्थात बिक्री एक गोइंग कंसर्न के रूप में में निर्धारित मोड के अनुसार है। ई-नीलामी के नियम और शर्ते इस प्रकार हैं:

1. ई-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता, मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम रं 'जहाँ है जैसा है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर आयोजित की जाएगी। संपर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज जिसमें संपत्ति का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और अंडरटेकिंग फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्ते शामिल हैं. harvinder@akgandassociates.com, kayem.liquidation@gmail.com पर मेल करके प्राप्त

इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले अपनी लागत पर अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए। संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूर्व अनुमति लेकर ई-मेल द्वारा अपनी केवाईसी/सम्पर्क नम्बर प्रस्तुत करने के उपरांत परिसमापक श्री हरविंदर सिंहः +91- 9810046631 से संपर्क करके

पूछताछ की जा सकती है। निरीक्षण की अंतिम तिथि -22.05.2023 इच्छक बोलीदाता को पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में दिए गए अनुसार दिल्ली में देय 'के एम कॉपर प्राइवेट लिमिटेड परिसमापनाधीन' के नाम से किसी भी अनसचित बैंक से आहरित डीडी के माध्यम से जमा धरोहर राशि

(ईएमडी) जमा करनी होगी। 5. इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी जमा और अनुरोध पत्र के लिए साक्ष्य (1) पहचान

के प्रमाण (2) वर्तमान पता-प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध की स्वप्रमाणित प्रति ई-मेल आईडी (5) लैंडलाइन और मोबाइल फोन नंबर (6) शपथ पत्र और वचन पत्र, अनुबंध 1 के अनुसार (7) बोली आवेदन प्रपत्र अनुबंध क्क के अनुसार (8) बोलीदाता द्वारा घोषणा, अनुबंध III के अनुसार, के साथ जमा करना होगा। इन अनुलग्नकों के प्रारूप पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिये जा सकते हैं। 22.05.2023 को शाम 5:00 बजे से पहले kayem.liquidation@gmail.com पर कोविड-19 के मद्देनजर शारीरिक संपर्क से बचने के लिए इन दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। परिसमापक द्वारा मांगे जाने पर मुल प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

पोर्टल https://ncltauction.auctiontiger.net पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए परिसमापक द्वारा पात्र बोलीदाताओं के नाम की पहचान की जाएगी। नीलामी सेवा प्रदाता (ऑक्शन टाइगर) पात्र बोलीदाताओं को ईमेल द्वारा यजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करेगा। यदि ई-नीलामी बंद होने के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही असीमित विस्तार

के साथ 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मुल्य से कम नहीं) जमा करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और इस आशय का एक संचार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जारी किया जाएगा जो परिसमापक के अनमोदन के अधीन होगा।. 8. सफल बोलीदाता की ईएमडी को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की

ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। परिसमापक सफल बोलीदाता को एक आशय पत्र (एलओआई) जारी करेगा और सफल बोलीदाता को शेष राशि यानी सफल बोली राशि में से पहले से भुगतान की गई ईएमडी राशि घटाकर राशि को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। एलओआई में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि जमा करने में चूक होने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी राशि (ईएमडी + कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जाएगी।

. समस्त विक्रय प्रतिफल के भुगतान के पश्चात विक्रय प्रमाण-पत्र/करार केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जायेगा अन्य किसी नाम से जारी नहीं किया जायेगा। 10. परिसमापक को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/आस्थगित/रद्द करने या किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को किसी भी स्तर पर ई-नीलामी से वापस

लेने का पर्ण अधिकार है। 11. यह बिक्री दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन होगी।

12. यदि किसी मामले में, एक से अधिक बोलीदाता ईएमडी जमा नहीं करते हैं, तो उस मामले में परिसमापक के पास हितधारकों के साथ परामर्श के बाद नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने की पूर्ण शक्ति होगी।

13. इच्छुक बोलीदाताओं को कंपनी के व्यवसाय और संचालन का ड्य डिलिजेंस करने के लिए परिसमापक के माध्यम से कार्यरत कंपनी द्वारा स्थापित और अनुरक्षित वर्चुअल डेटा रूम तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी की तारीख तक डेटा रूम में जानकारी तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा डेटा

रूम में जानकारी तक पहुंच और उसका उपयोग समय-समय पर परिसमापक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार 14. ई–नीलामी तिथि एवं समयः 31.05.2023 को सायं 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)।

हरविंदर सिंह दिनांक: 01.05.2023 (पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001 /IP-P00463/2017-18/10806) स्थानः दिल्ली मैसर्स के एम कॉपर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में परिसमापक ई-मेल-harvinder@akgandassociates.com, kayem.liquidation@gmail.com

Mr. Manohar Lal Bhatia (Partner)

प्रपत्र-'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

कलरसिटी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद, यूपी में रियल एस्टेट

सिटी एंड वेव सिटी गेट गाजियाबाद यूपी 201001 भारत कोई नहीं वेबसाइट का युआरएल | उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश | 3 / 4 पार्क टाउन आदित्य वर्ल्ड सिटी एनएच—24 वेव के पास अचल संपत्तियां स्थित हैं। सिटी एंड वेव सिटी गेट गाजियाबाद युपी 201001 भारत पर रिथत निर्माणाधीन परियोजना स्थल पर अचल संपत्ति मुख्य उत्पादों / सेवाओं की व प्रबंधन द्वारा घर खरीदारों से संबंधित रिकॉर्ड सहित रथापित क्षमता परियोजना का पूरा विवरण नहीं सौंपा गया है। जहां तक कॉर्पोरेट देनदार की सूचना उपलब्ध है, उसके पास 85,462. 50 वर्ग मीटर भूमि की अनुभेय एफएसआई है जो 22,790 वर्ग मीटर @ 3.75 एफएआर पर है जिसमें प्लॉट संख्या जीएच-3/4 के लिए 2.50 का अनुमेय एफएआर और 1.25 का खरीदा गया एफएआर शामिल है, जिसको बाद में शाहपुर बम्हेड्रा, परगना डासना, तहसील 8 और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित "संपूर्ण भूखंड" के रूप में संदर्भित किया गया है और एकीकृत टाउनशिप के लिए आंशिक रूप से पूरा किया गया है। इसके आगे यह भी बताना चाहेंगे की पूर प्रबंधन ने आरपी को मूल संपत्ति के दस्तावेज नहीं सींपे हैं उपर्युक्त भूमि पर निर्माण एवं विकास कार्य भूमि के मामूली कार्य / उत्खनन को छोड़कर कछ नहीं किया गया है।

पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं कर्मचारियों / कामगार की संख्या

को इस तरह के खर्चों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। पूर्व प्रबंधन ने समाधान प्रोफेशनल को कॉर्पोरेट देनदार दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय कें रिकॉर्ड (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक) पुरे नहीं सौंपे है। विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की समाधान प्रोफेशनल के पास उपलब्ध वित्तीय विवरण सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लैए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक इंमेल cirp.colorcityhomes@gmail.comऔर

विवरण यहां उपलब्ध हैं किया जा सकता है । संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत

कृपया आरपी को cirp.colorcityhomes@gmail.com समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां और hemigupta@rediffmail.com पर भी एक ईमेल लिखें उपलब्ध है

सची जारी करने की तिथि

अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेत् | 16 मई 2023 संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम 26 मई 2023

. अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां 31 मई 2023 प्रस्तत करने हेत अंतिम तिथि ईओआई जमा करने के लिए संसाधित | इलेक्ट्रॉनिक रूप से cirp.colorcityhomes@gmail.com ईमेल आईडी और hemigupta@rediffmail.com पर और भौतिक रूप से बी-84, तक्षशिला कॉलोनी गढ़ रोड मेरठ यूपी-250004

तिथि: 30.04, 2023 समाधान प्रोफेशनल, कलरसिटी होम्स प्राइवेट लिमिटेड स्थान: मेरठ आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA002/IP-N00147/2017-18/10383 पता : 24, मेडी सेंटर, ईव्स पेट्रोल पंप के सामने, हाप्ड़ रोड, मेरठ (यूपी)—250002

मोबाईल : 9359911588 |ईमेल : hemigupta@rediffmail.com, cirp.colorcityhomes@gmail.com

www.readwhere.com

सूरत, ३० अप्रैल (भाषा)। गुजरात के सूरत में हवाई अड्डे के निकट 7.15 किलोग्राम सोना जब्त कर इस सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मृताबिक बरामद किए गए सोने की कीमत 4.3 करोड़

रुपए बताई जा रही है। सुरत पुलिस के विशेष अभियान समृह (एसओजी) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक सोने को दुबई से एक विमान में अवैध रूप से लाया गया था। पुलिस ने एक खुफिया सूचना के आधार पर शनिवार रात को एक कार को रोका और इस सिलसिले में चार लोगों को पकड़

रोका और इस सिलसिले में चार लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस के राखोलिया (30) के रूप में हुई हुई।

आधार पर शनिवार रात को एक कार को

ने कहा कि चारों की पहचान फेनिल मवानी (27), नीरव डाबरिया (27), उमेश लाखो (34) और सावन राखोलिया

लिया गया। पुलिस के अधिकारी

COURT NOTICE COURT NOTICE JMIC Ludhiana Godara Colony, Malout Road, Bathinda Through Bharat Singh Rawat S/o Shyam

Kishore Nahak next date: 08-06-2023 CNR NO: PBBT03-001948-2021

n above titled case, the defendant(s)/ responden

अंचल कार्यालय: इण्डियन बैंक बिल्डिंग, प्रथम तल, 17,

फोनः 011-23345518, zodelhicentral@indianbank.co.in **शाखा कार्यालय:** जहांगीरपुरी शाखा, ए-10-11, जीटी रोड, मेट्रो पिलर नं.-148 के सामने,

JMIC Ludhiana COURT NOTICE In The Court Of Ms. Shweta Dass

JMIC Ludhiana CNR NO: PBLD03-008071-2020 COMA/2030/2020 Peshi: 26-05-2023 nublication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec138 of N.I ACT Kotak Mahindra Bank Mahadev Shankar Mandhare Notice To: Mahadev Shankar Mandhare Prop. M/s Kunal Transport Flat No 102 Plot N 71 Sec. 14, Nr.

Indra Gandhi Engineering College Koparkhairane Navi Mumbai 40070 1(Maharashtra) Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 26-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication

default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_not ice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

of this proclamation take notice that, in

जिस किसी का भी इससे संबंध हो (एलएलपी अधिनियम, 2008, एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) तथा एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17(4)

के नियम 17 के अंतर्गत यह एलएलपी कम्पनी रजिस्टार

शपथ-पत्र द्वारा समर्पित अपनी आपत्ति जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

M/s Rajprotm Agencies Pvt Ltd 9-89 Prince Golam Mohammad Shah Road, Nr Bd Memorial School 2nd Floor, Kolkata-

700033 (West Bengal) Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 31-

above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs= district

M/s Rajprotim Agencies Pvt Ltd Notice To: Partha Protim Baneriee, Managing Director Of M/s Rajprotim Agencies Pvt Ltd 49-89 Prince Golam

Mohammad Shah Road, Nr Bd Memoria School 2nd Floor, Kolkata- 700033 (West Bengal) Rajasree Banerjee Director Of

Peshi: 31-05-2023

CNR NO: PBLD03-000574-2020

COMA/365/2020

82 CR.PC Complaint R/w sec138 of N.I ACT

Kotak Mahindra Bank

publication notice for proclamation under section

05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed